




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 767]
No. 767]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2002/भाद्र 5, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2002/BHADRA 5, 1924

वस्त्र मंत्रालय
(पटसन आयुक्त का कार्यालय)
अधिसूचना
कोलकाता, 27 अगस्त, 2002

का.आ. 913(अ).—पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश 2000 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एस० मजुमदार, पटसन आयुक्त, एतद् द्वारा प्रति सौ बोरों की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) उचित मूल्य रु० 1694.22 औपबंधिक रूप से निर्धारित करता हूँ, जिसमें जुलाई माह 2002 के दौरान 50 कि० ग्रा० पैकिंग के लिए बी टवील बोरे जिसका आकार 94 सेंमी० x 57 सेंमी० / एच० डी० और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम हो, अन्तिम सिरे प्रति डी० एम० 76 (+4,-2) हो तथा पिक्स प्रति डी० एम० 28(+2,-1) जिसमें बोरे की लंबाई के मध्यभाग में एकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150मि०मी० दूरी पर दो क्रमागत हरे बाने के धागों को बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के वर्तमान विनिर्देशन (भा० मा० सं० 12650-1997 अद्यतन यथा संशोधित)की पुष्टि करता हो, की खरीद अथवा बिक्री की जाएगी । प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय कोलकाता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिन्ह भी हो । भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामर्थ्य (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के० जी० एफ० और बाने की 145 के० जी० एफ० हो ।

2. उक्त औपबंधिक मूल्य, एम/एस हुगली मिल कों० लिमिटेड तथा अन्य बनाम संघ भारत के 2001 के समादेश याचिका रां० 2280 तथा 2002 के 275 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के अन्तिम आदेश के अनुसार संशोधित किया जा सकता है ।

(1)

3. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क, देय उपकर सम्मिलित नहीं होंगे एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा बिक्री कर अलग से भुगतान किया जाएगा ।

[फा. सं. 8/2/2000-जूट]

एस. मजुमदार, आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)
NOTIFICATION

Kolkata, the 27th August, 2002

S.O. 913(E).—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, I S.Majumdar, Jute Commissioner, hereby provisionally fix Rs.1694.22 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B.Twill Jute Bags for 50kg packing of the size 94 cm x 57 cm / HD., 665gms. mass per bag, 76(+4, -2) ends per dm, 28(+2, -1) picks per dm., single blue stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive green warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No.IS:12650-1997, as amended till date) shall be purchased or sold during the month of July 2002. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS&D, Calcutta with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall be 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

2. The above provisional price is subject to revision pending final orders of Hon'ble High Court, Kolkata in the matter of the writ petition No. 2280 of 2001 and 275 of 2002 of M/s. Hooghly Mills Co. Ltd. & Anr. -Vs- Union of India.

3. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 8/2/2000-Jute]

S. Majumdar, Commissioner